

प्रेस नोट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर दि० 09.09.2021

एक शातिर अपराधी 100 ली० अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम नौसादर व 01 किलो यूरिया व एक अदद कार स्वीफ्ट के साथ गिरफ्तार

पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय चौकी प्रभारी आजाद नगर उ०नि० अभिनव मिश्रा मय टीम को अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। उ०नि० अभिनव मिश्रा मय टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दिनांक 08.09.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि एक कार नं० AP28CJ9666 सफेद रंग की स्वीफ्ट में कुछ व्यक्ति प्राइमरी पाठशाला कठऊर की तरफ से अवैध कच्ची शराब लेकर जाने के लिये खड़े हैं। इस सूचना पर मैं उ०नि० मय हमराहियान के प्राइमरी पाठशाला कठऊर के पास पहुंचकर उक्त कार के पास पहुंचा कि अचानक से कार लेकर भागने लगे मौके पर हमराही कर्मचारीगण की मदद से पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया तथा दो व्यक्ति गाड़ी से उतर कर अन्धेरे का लाभ उठाकर भाग गये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मेराज पुत्र राजू निवासी चिलमापुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर बताया। गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाड़ी में 100 ली० अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम नौसादर व 01 किलो यूरिया बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति को जुर्म का बोध कराते हुए समय करीब 22.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गाड़ी को कब्जा पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

मेराज पुत्र राजू निवासी चिलमापुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

अभियुक्त से बरामद संपत्ति

100 ली० अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम नौसादर व 01 किलो यूरिया व एक अदद स्वीफ्ट कार नं० AP28CJ9666।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 0365/2021 धारा 272 भादवि व 60/72 आबकारी अधि० थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री अभिनव मिश्रा चौकी प्रभारी आजाद नगर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. हे०का० चन्देश्वर यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. का० बबलू यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर